



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 अग्रहायण 1937 (श०)

(सं० पटना 1322) पटना, वृहस्पतिवार, 17 दिसम्बर 2015

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

20 नवम्बर 2015

सं० 3 / सी.एस.एम. / म.नि.-05 / 2015-581—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संविधान के अधीन बनी कार्यपालिका नियमावली के नियम 6(1) एवं 7(1) के अनुसार मुख्य मंत्री, बिहार की सलाह से बिहार के राज्यपाल सचिवालय के आदेश ज्ञापांक—ओथ-02 / 2015-1594 / रा०स०(I) दिनांक 20.11.2015 के आलोक में मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को सरकार के विभागों का कार्य निम्नलिखित रूप से आवंटित किया जाता है :-

क्र०स०	मुख्य मंत्री/मंत्री का नाम	विभाग/विभागों के नाम
1.	2.	3.
1.	श्री नीतीश कुमार, मुख्य मंत्री	1. सामान्य प्रशासन 2. गृह 3. मंत्रिमंडल सचिवालय 4. निगरानी 5. निर्वाचन 6. सूचना एवं जन सम्पर्क 7. ऐसे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हैं।
मंत्री		
2.	श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री	1. पथ निर्माण 2. भवन निर्माण 3. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण
3.	श्री तेज प्रताप यादव	1. स्वास्थ्य 2. लघु जल संसाधन 3. पर्यावरण एवं वन
4.	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी	1. वित्त
5.	श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव	1. उर्जा 2. वाणिज्य कर

क्र०सं०	मुख्य मंत्री/मंत्री का नाम	विभाग / विभागों के नाम
1.	2.	3.
6.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1. जल संसाधन 2. योजना एवं विकास
7.	श्री अशोक चौधरी	1. शिक्षा 2. सूचना प्रावैद्यिकी
8.	श्री श्रवण कुमार	1. ग्रामीण विकास 2. संसदीय कार्य
9.	श्री जय कुमार सिंह	1. उद्योग 2. विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी
10.	श्री आलोक कुमार मेहता	1. सहकारिता
11.	श्री चन्द्रिका राय	1. परिवहन
12.	श्री अवधेश कुमार सिंह	1. पशु एवं मत्स्य संसाधन
13.	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा	1. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 2. विधि
14.	श्री महेश्वर हजारी	1. नगर विकास एवं आवास
15.	श्री अब्दुल जलील मस्तान	1. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध
16.	श्री रामविचार राय	1. कृषि
17.	श्री शिवचन्द्र राम	1. कला, संस्कृति एवं युवा
18.	श्री डॉ मदन मोहन झा	1. राजस्व एवं भूमि सुधार
19.	श्री शैलेश कुमार	1. ग्रामीण कार्य
20.	श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा	1. समाज कल्याण
21.	श्री संतोष कुमार निराला	1. अनुसूचित जाति / जन जाति कल्याण
22.	श्री डॉ अब्दुल गफूर	1. अल्पसंख्यक कल्याण
23.	श्री चन्द्र शेखर	1. आपदा प्रबंधन
24.	श्री खुशीद उर्फ फिरोज अहमद	1. गन्ना उद्योग
25.	श्री मुनेश्वर चौधरी	1. खान एवं भूतत्व
26.	श्री मदन सहनी	1. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
27.	श्री कपिल देव कामत	1. पंचायती राज
28.	श्रीमती अनिता देवी	1. पर्यटन
29	श्री विजय प्रकाश	1. श्रम संसाधन

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1322-571+300-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>